

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 1973/आषाढ़ 4, 1895

No. 227]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1973/ASADHA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd June 1973

S.O. 351(E).—In pursuance of Explanation to the First Schedule to the Produce Cess Act 1966 (15 of 1966) read with sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) S. O. No. 434 (E), dated the 19th June, 1972, the Central Government is pleased to fix, with effect from the 1st July, 1973, the tariff value in respect of Cashew Kernel at Rs. 1,000/- per quintal for the year 1973-74.

[No. F. 4-3/73-Econ. Py.]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 जून. 1973

का० आ० 351(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्पाद उपकर अधिनियम 1966 (1966 का 15) की प्रथम (1963)

अनुसूची के स्पष्टीकरण के अनुसरण में तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ०-434 (अ) तारीख 19 जून, 1972 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार 1 जुलाई, 1973 में वर्ष 1973-74 के लिए, काजू गिरी के सम्बन्ध में टैरिफ मूल्य 1,000 रु० प्रति क्विंटल नियत करती है।

[सं० फा० 4-3/73-अर्थ नीति]

S.O. 352(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Agricultural Produce Cess Act, 1940 (XXVII of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) S. O. No. 442 (E), dated the 24th June, 1972, the Central Government is pleased to fix with effect from 1st July, 1973 for the articles specified in Column 2 of the Schedule hereto annexed being the articles enumerated in the schedule to the said Act, the tariff values specified in the corresponding entry in Column thereof.

Schedule of Tariff Values for 1973-74

S.No. in the Schedule to the Act.	Name of the Articles	Unit	Tariff value fixed for 1973-74
1	2	3	4
			Rs.
1. Bones—			
	Bones, broken or crushed (including bone grist but excluding bonemeal or bone manure)	Quintal	70.00
2. Bristles—			
	(a) White:	Kilogram	
	Shorts and Riflings	"	7.00
	2" to 2 3/4"	"	65.00
	3" to 3 3/4"	"	110.00
	4" to 5"	"	145.00
	5 1/4" and up	"	200.00
	(b) Dark:	Kilogram	
	Shorts and Riflings	"	7.00
	2" to 2 3/4"	"	65.00
	3" to 3 3/4"	"	120.00
	4" to 5"	"	145.00
	5 1/4" and up	"	195.00
3. Butter		"	10.00
4. Cereals, other than rice and wheat—		Quintal	
	Bajra	"	60.00
	Jowar	"	58.00
	Barley	"	58.00
	Maize	"	58.00
6. Fibres—			
	For Brushes:	Quintal	
	(i) Palmyra Fibres	"	300.00
	(ii) Palmyra Stalks	"	90.00
	(iii) Other kinds	"	102.00

1	2	3	4
			Rs.
7. Fish—			
	Fish (excluding canned fish)	Quintal	
(i)	Fish, dry salted	"	300 00
(ii)	Prawns, dry (excluding prawns powder)	"	850 00
(iii)	Shark fins (including Singhala and inferior type of Fishmaws)	"	1630 00
(iv)	Fishmaws (including Vam, Ghol, Dara and Kote varieties)	"	1200 00
(v)	Frozen Shrimps and Prawns :		
	(a) Peeled ; peeled and deveined		
	Frozen	Quintal	
	(1) Counts up to 30	"	2800 00
	(2) Counts 31 to 50	"	2120 00
	(3) Counts 51 to 90	"	1400 00
	(4) Counts 91 and above including Tiny and Broken	"	1000 00
	(b) Headless Shell-on Frozen	Quintal	
	(1) Counts upto 30	"	2850 00
	(2) Counts 31 to 50	"	1800 00
	(3) Counts 51 and above and Tiny	"	1130 00
	(vi) Frozen Lobster Tails :		
	(1) Under 4 ozs. (114 Grammes) (each)	Quintal	2800 00
	(2) 4 ozs. (114 Grammes) and above (each)	"	3800 00
8. Fruits—			
	Almonds-in-shell	"	393 00
	Almonds without shell	"	787 00
		Thousand Quintal	
	Coconuts	"	750 00
	Raisins, all kinds	"	866 00
	Tamarind	"	200 00
	Walnuts-in-shell	"	445 00
	Walnut kernal	"	725 00
9. Ghee		"	1545 00
	Ghee substitute (including vegetable Ghee and hydrogenated edible oil and fat mixtures)	"	180 00
10. Hides, raw—			
	Buffalo hides (excluding salt skins)	Kilogram	
	(i) Arsenicated	"	3 45
	(ii) Salted	"	2 35
	Cow hides (excluding salt skins) :		
	(i) Arsenicated	"	3 75
	(ii) Salted	"	3 55
11. Manures—		Quintal	
	Manures of animal origin all kinds (including prawns powder but excluding bonemeal or bonemanure)	"	50 00
	Bonemeal or bone-manure	"	23 50

1	2	3	4
12. Oilcakes—		Metric Ton	Rs.
Groundnut oilcake and meal	. . .	"	600.00
Linseed oilcake and meal	. . .	"	660.00
Mohwa oilcake and meal	. . .	"	113.00
Niger and Kardi oilcake and meal	. . .	"	540.00
Sal seed meal	. . .	"	200.00
Oilcakes and meals other kinds	. . .	"	590.00
13. Pulses—		Quintal	
Dal (split) all kinds	. . .	"	200.00
Pulses (whole) all kinds	. . .	"	180.00
14. Seeds—			
Ajwan	. . .	"	210.00
Aniseed	. . .	"	230.00
Castor seed	. . .	"	150.00
Celery seed	. . .	"	470.00
Coriander seed	. . .	"	260.00
Cotton seed	. . .	"	90.00
Cummin-seed (white)	. . .	"	435.00
Cummin-seed (Black)	. . .	"	2460.00
Fennel seed	. . .	"	240.00
Fenugreek seed	. . .	"	160.00
Groundnuts, decorticated	. . .	"	245.00
Linseed	. . .	"	185.00
Mustard & Rapeseed	. . .	"	200.00
Niger seed	. . .	"	190.00
Sawa (Dill) seed	. . .	"	190.00
Til (Sesamum)	. . .	"	245.00
15. Skins, raw—		Piece	
Goat, skins (excluding kid skins)	. . .	"	10.00
Sheep skins (excluding lamb skins)	. . .	"	6.00
16. Spices—		Quintal	
Chillies, dry	. . .	"	425.00
Ginger, dry	. . .	"	350.00
Pepper, black	. . .	"	500.00
Turmeric	. . .	"	
(i) Finger	. . .	"	255.00
(ii) Gatha (Bulb)	. . .	"	230.00
Cardamom—		Kilogram	
(i) Bi (ELAICHA)	. . .	"	15.00
(ii) Big Cardamom seeds	. . .	"	20.00
(iii) Small (ELAICHI Green or Bleached)	. . .	"	50.00
(iv) Small Cardamom seeds	. . .	"	40.00
17. Tobacco, unmanufactured—			
Flue-cured Virginia—			
Class I Grades, 1,2,3, C (1-4) X, 2 (c), 3 (c), AF, AF (General), AF (Special), AS, AS (General), AS (Special), A. T. AT (General), AT (Special)	. . .	"	10.00
Class II Grades, F (1-4) S. (1-4), T (1-4), LBY (C) Blend, LBY 2 (c) Blend, 4, LBY, LG, 4 (c) LBY (c), LG (c) FLG.	. . .	"	8.00
Class III Grades, LBYi 2, LMG, BB,	. . .	"	4.00

1	2	3	4
			Rs.
	Bright-bits, semi-bright bits, Dark bits, MG, LB _Y (c), B(c), LMG (c), MG (c),		
	Class IV, Grades DB, DG Bright PL, Dark, PL, DBL, DDB, FS, FS ₂ , and stems and stem-bits,	"	2.00
	Non-flue cured	"	3.50
	Chewing, bidi, cheroot, cigar tobacco and Dark western fire-cured tobacco	"	2.50
18. Vegetables—			
	Garlic	Quintal	105.00
	Onions	"	45.00
	Potatoes	"	60.00
19. Wheat, all kinds		"	76.00
20. Wheat, Flour—			
	Wheat atta	"	84.00
	Wheat flour (maida)	"	106.00
	Suji	"	110.00

[No. F. 4-1/73-Econ. Py.]

T. P. SINGH, Secy.

का० आ० 352(अ).—कृषि उत्पाद, उपकर अधिनियम, 1940 (1940 का 27) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 442 (अ) तारीख 24 जून, 1972 की अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में परिगणित वस्तुएं हैं, 1 जुलाई 1973 से उसके स्तम्भ 4 में तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है :

1973-74 के लिए टैरिफ मूल्यों की अनुसूची

अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं०	वस्तुओं के नाम	एकक	1973-74 के लिए नियत टैरिफ मूल्य
1	2	3	4
			रुपये
1. हड्डियां ।	हड्डियां टूटी हुई या पिसी हुई (जिसमें पेष्य हड्डियां शामिल हैं किन्तु जिसमें हड्डियों का चूरा या हड्डियों की खाद शामिल नहीं है)	क्विंटल	70.00

1	2	3	4
2. बाल			रुपये
(क) सफेद			
शीट्स और रिफिलिंग्स	किलोग्राम		7.00
2'' से 2-3/4'' तक	"		65.00
3'' से 3-3/4'' तक	"		110.00
4'' से 5'' तक	"		145.00
5-1/4'' से ऊपर	"		200.00
(ख) रंगीन—			
शीट्स और रिफिलिंग्स	किलोग्राम		7.00
2'' से 2-3/4''	"		65.00
3'' से 3-3/4''	"		120.00
4'' से 5''	"		145.00
5-1/4'' और ऊपर	"		195.00
3. मक्खन	"		10.00
4. चावल तथा गेहूं को छोड़ कर अन्य अनाज			
बाजरा	क्विंटल		60.00
ज्वार	"		58.00
जी	"		58.00
मक्का	"		58.00
6. रेशे			
ब्रुशों के लिए—			
(i) पाम्परा रेशे	क्विंटल		300.00
(ii) पाम्परा डंडी	"		90.00
(iii) अन्य किस्में	"		102.00
7. मछली			
मछली (जिसमें डिब्बा बन्द मछलियां शामिल नहीं)			
1. मछली, सूखी नमकीन	क्विंटल		300.00
2. झींगा मछली, सूखी (जिसमें झींगा मछली बुर्रा शामिल नहीं)	"		850.00
3. शार्क फिन्स (जिसमें सिघल तथा घटिया किस्म के फिसमाज शामिल हैं)	"		1630.00
4. फिसमाज (जिसमें बाम, धोल, दारा तथा कटे किस्म शामिल हैं)	"		220.00

1	2	3	4
			रुपये
5.	जमी हुई शिम्य तथा झीगा मछलियाँ--		
	(क) चमैरहित, चमैरहित तथा शिगा विच्छेदित जमे हुए		
	(1) संख्या 30 तक	क्विटल	2800.00
	(2) संख्या 31 से 50 तक	"	2120.00
	(3) संख्या 51 से 90 तक	"	1400.00
	(4) संख्या 91 और उससे ऊपर छोटे तथा टूटे हुए सहित	"	1000.00
	(ख) मिर रहित शैल जमा हुआ		
	(1) संख्या 30 तक	"	2850.00
	(2) संख्या 31 से 50 तक	"	1800.00
	(3) संख्या 51 और उससे ऊपर तथा छोटे	"	1130.00
6.	जमी हुई लोबस्टर मछली के पिछले सिरे		
	(1) 4 औंस से नीचे (114 ग्राम) (प्रत्येक)	"	2800.00
	(2) 4 औंस (114 ग्राम) और उससे ऊपर (प्रत्येक)	"	3800.00
8.	फल		
	छिलके सहित बादाम	"	393.00
	छिलके रहित बादाम	"	787.00
	नारियल	हजार	750.00
	मब प्रकार की किण्वमिश्र	क्विटल	866.00
	उमली	"	200.00
	छिलका सहित अखरोट	"	445.00
	अखरोट गिरी	"	725.00
9.	घी	"	1545.00
	घी एवजी (जिसमें वनस्पति घी तथा हाइड्रोजनीकृत खाद्य तेल तथा स्नेहमिश्रण सम्मिलित है)	"	480.00
10.	खाल, कच्ची		
	शैम की खालें (बछड़ों की खालें छोड़कर)		
	1. अमोनिकृत	किलोग्राम	3.45
	2. नमकीन	"	2.35
	गौ-खालें (बछड़ की खालों को छोड़ कर)		
	1. अमोनिकृत	"	3.75
	2. नमकीन	"	3.55

1	2	3	4
			रुपये
11. खादें			
सब किस्म के पशुओं की खादें (जिसमें सीगा चूर्ण शामिल है लेकिन हड्डी चूर्ण या हड्डी खाद शामिल नहीं)	क्विंटल		50.00
हड्डी चूर्ण या हड्डी खाद	"		23.50
12. खलें			
मूंगफली खल तथा चूरा	मीट्रिक टन		600.00
अलसी खल तथा चूरा	"		660.00
महुआ खल तथा चूरा	"		113.00
निगर तथा कर्दी खल तथा चूरा	"		540.00
साल के बीजों का चूरा	"		200.00
खलें तथा उनका चूरा अन्य किस्में	"		590.00
13. दालें			
दाल (दली) सब किस्में	क्विंटल		200.00
दाल (माबूत) सब किस्में	"		180.00
14. बीज			
अजवायन	"		210.00
सीफ	"		230.00
एरंड बीज	"		150.00
कैलरी बीज	"		470.00
घनिया बीज	"		260.00
बिनौले	"		90.00
जीरा बीज (सफेद)	"		435.00
जीरा बीज (काला)	"		2460.00
सोया बीज	"		240.00
मेथी	"		160.00
मूंगफली गिरी	"		245.00
अलसी	"		185.00
सरसों तथा मेस्ता	"		200.00
रामतिय बीज	"		190.00
सौन्ना (दिल) बीज	"		190.00
तिल (समामम)	"		245.00

1	2	3	4
			रुपये
15.	खालें, कच्ची		
	बकरी की खाल (बकरी के बच्चे की खालें छोड़ कर)	टुकड़ा	13. 00
	भड़ की खाल (मेमने की खालें छोड़ कर)	"	6. 00
16	मसाले		
	मिर्च सूखी	किबटल	425. 00
	अदरक सूखी	"	350. 00
	काली मिर्च	"	500. 00
	हल्दी—		
	1. साबुत	"	255. 00
	2. गांठ (बल्व)	"	230. 00
	इलायची—		
	1. बड़ी (इलायची)	किलोग्राम	15. 00
	2. बड़ी इलायची के बीज	"	20. 00
	3. छोटी (इलायची हरी या विरंजिका)	"	50. 00
	4. छोटी इलायची के बीज	"	40. 00
17.	बिना तैयार किया हुआ तम्बाकू—		
	फिल्ट्रु क्योस्ड वर्जीनिया—		
	प्रथम वर्ग श्रेणी, 1, 2, 3, सी (1-4), एक्स, 2(सी)		
	3 (सी), ए एफ, ए एफ (सामान्य) ए एफ (विशेष), ए एस, ए एस (सामान्य), ए एस (विशेष) ए टी, ए टी (सामान्य), ए टी (विशेष)	"	10. 00
	द्वितीय वर्ग श्रेणी एफ, (1-4) एस (1-4) एल बी वार्ड (सी) मिश्रण, एल बी वार्ड 2(सी) मिश्रण, 4, एल बी वार्ड, एल जी, 4(सी), एल बी वार्ड (सी), एल. जी (सी), एफ एल जी	"	8. 00
	तृतीय वर्ग श्रेणी, एल बी वार्ड 2, एल एम जी, बी, ब्राइट- विट्स, सीमि-ब्राइट विट्स, डार्क विट्स, एम जी, एल बी वार्ड 2 (सी), बी (सी), एल एम जी (सी), एम जी (सी)	किलोग्राम	4. 00
	चतुर्थ वर्ग श्रेणी, डी बी डी जी, ब्राइट-पी, एल, डार्क पी एल, डी बी एल, डी डी बी, एफ एस, एफ एस 2 तथा डंडी ग्रीर डंडी के टुकड़े	"	2. 00

1	2	3	4
			रुपये
	नीन—फिट्यू क्योरड		3.50
	चबाने वाले, बीड़ी, बुरुट, सिगार का तम्बाकू और गहरे रंग का पश्चिमी अग्नि उपचारित तम्बाकू	"	2.50
18.	सब्जियाँ—		
	लहसन	किबंटल	105.00
	प्याज	"	45.00
	आलू	"	60.00
19.	गेहूं सब किसमें	"	76.00
20.	गेहूं (फ्लोर)		
	गेहूं आटा		84.00
	गेहूं आटा (सैदा)	"	106.00
	सूजी	"	110.00

[सं० फा० 4-1/73—अर्थ नीति]

त्रिवेणी प्रसाद सिंह, सचिव ।